

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10) देखें)

मासिक/त्रैमासिक कर अवधि का रिटर्न (कार्य संविदा करने वाले व्यहारी के लिये)

[illegible]

7- वस्तुवार खरीद का विवरण एवं क्रय का दायित्व

(a) खरीद का विवरण

क्रम सं०	वस्तु	उत्तर प्रदेश के अन्दर से खरीद की धनराशि		उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीद की धनराशि		
		पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	मूल्य	भाड़ा एवं अन्य अन्तरनिहित खर्च	योग

पंजीकृत व्यवहारी से खरीद का विवरण संलग्न करें संलग्नक-सी-1

(b) अपंजीकृत से किये गये खरीद पर देय कर कर

क्रम सं०	वस्तु	खरीद का आवत	कर की दर	कर की धनराशि

8-समाधान योजना से आच्छादित संविदा के संबंध में समाधान राशि (अनुलग्नक-2सी में संलग्न करें) रु0.....

9- किसी समाधान योजना से आच्छादित कार्य संविदा के मामलों में करयोग्य टर्नओवर की गणना—

(a) यदि समुचित लेखा पुस्तकों का रख-रखाव किया गया हो

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1-	प्राप्त/प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि	
2-	घटाये	
i-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में खपत हो गयी वस्तुओं, जिनका अन्तरण संपत्ति के रूप में नहीं हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशि	
ii-	करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियां	
iii-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गयी मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य भाड़े की समस्त धनराशिया	
iv-	सेवा एवं मजदूरी एवं इसपर लाभ, की समस्त धनराशियां	
v-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का मूल्य जिसकी सम्पत्ति के रूप में अन्तरण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य में हुई हो।	
vi-	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तुओं का मूल्य जिसकी सम्पत्ति के रूप में अंतरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात से हुआ है।	
vii	उन समस्त वस्तुओं के मूल्य जिनका बिक्री के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रूप में प्रान्त से बाहर हुआ हो ।	
viii	सकर्म कार्य संविदा कार्य का निष्पादन करने वाले व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयंदायी है, के द्वारा प्राप्त के भीतर से खरीदे गये नान वैट गुड्स की समस्त धनराशियाँ;	
ix	व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीदी गयी नान वैट गुड्स वस्तुओं के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ।	
x	संविदी के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित स्थापना का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्च, एवं इन पर लाभ की धनराशि।	
3-	योग (2 का i से x तक)	
4-	यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत कर आवर्त (1-3)	
5-	पंजीकृत उप-संविदाकारों को किया गया भुगतान	
6-	यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध कर योग्य आवर्त (4-5)	

(b) यदि समुचित लेखा पुस्तकों की रख-रखाव न किया गया हो

क्रम सं०	कान्टेक्ट नं०	संविदी का नाम एवं पता	संविदी का प्रकार	प्राप्त अथवा प्राप्त की धनराशि	मजदूरी एवं सेवा एवं इस पर लाभ के मद में कटौती की धनराशि	पंजीकृत उप-संविदाकार को किया गया भुगतान	कार्य संविदा की शुद्ध कर योग्य राशि [5-(6+7)]
1	2	3	4	5	6	7	8

*उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम-9(3) के अन्तर्गत

(c) कर की गणना :-

क्रम सं०	वस्तु का विवरण	कर योग्य बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की राशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
etc			योग्य=	

10- कुल देयकर [8+9(c)]

रु०-----

11- आई0टी0सी0 का विवरण

क्रम सं०.	विवरण	घनराशि
i-	गत कर अवधि से आगे लायी गई आई०टी०सी की गणना	
ii.	कर अवधि के दौरान अर्जित आई०टी०सी *	
iii	योग (i+ii)	
iv	कर अवधि में देय कर के विरुद्ध समायोजित आई०टी०सी	
v	अगले कर अवधि में अग्रसारित आई०टी०सी की अवशेष घनराशि (iii-iv)	

* अनुलग्नक 3-सी में विवरण संलग्न

12- शुद्ध देय कर [10-11(iv)]

रु०

13- जमा कर का विवरण :-

(a) बैंक / ट्रेजरी जहाँ कर जमा हुआ

[illegible]

(b) समायोजन बॉउचर्स से समायोजन

[illegible]

(c)- टी0डी0एस0 द्वारा जमा

क्रम सं०	संविदी/व्यक्ति जिसेने टी०डी०एस० कटौती का नाम व पता	टी०डी०एस०की धनराशि	जमा फार्म—XXXI का क्रमांक
	योग :		

14- कुल जमा कर [13(a)+13(b)+13(c)]

₹0-----

घोषणा

मैं, ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी-----प्रास्थिति -----[अर्थात् स्वामी,
निदेशक, साक्षीदार आदि जैसाकि नियम 32(6) में दिया गया है] एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ एवं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिये गये विवरण
एवं आंकड़ें मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझ कर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक -

स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि का नाम एवं हस्ताक्षर

फर्म का नाम एवं व्यापार की प्रकृति

दिन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45(10) देखें)

फार्म – चौबीस-सी

अनुलग्नक-सी -1

कर बीजक से की गई खरीद की सूची

(i)	केता व्यवहारी का नाम और पता																												
(ii)	टिन																												
(iii)	कर निर्धारण वर्ष											करअवधि समाप्ति का दिनांक										d	d	m	m	y	y	y	y
(iv)	विक्रेता व्यवहारी का नाम और पता	टिन										कर बीजक संख्या	कर बीजक का दिनांक	माल का विवरण			माल का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	कर बीजक की सकल राशि										
														नाम	कोड	मात्रा/माप													
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													

पार्टनर/प्रोपाईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
 प्रस्थिति
 व्यवहारी का नाम एवं पद्धति
 टिन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

फार्म – चौबीस-सी

अनुलग्नक-सी-2

समाधान योजना को आच्छादित संविदा में समाधान राशि की गणना

क्र0 सं0	कान्टेक्ट नं0	संविदी का नाम एवं पता	संविदी का प्रकार	सकल प्राप्त/प्राप्त धनराशि	उप-संविदा कार को भुगतान की धनराशि	संदेय कटौती			शुद्ध समाधान योग्य राशि [5-(6+7+8+9)]	समाधान राशि की धनराशि	समाधान राशि से अधिक कर योग्य राशि, यदि कोई हो				सकल समाधान राशि (11+15)
						भू कार्य	संविदी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु	अन्य कटौती			वस्तु	आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

पार्टनर/प्रोपाईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
 प्रास्थिति
 व्यवहारी का नाम एवं पद्धति
 टिन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
फार्म – चौबीस-सी

अनुलग्नक-सी-3

(A) कर योग्य माल की खरीद पर अर्जित आईटी0सी0

क्र०सं०	वस्तु का नाम	टैक्स इनवायस द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीद			टैक्स इनवायस द्वारा अपंजीकृत व्यवहारी से खरीद			कुल आईटी0सी0
		माप/मात्रा	वस्तु का मूल्य	जमा/ जमायोग्य कर	माप/मात्रा	वस्तु का मूल्य	ट्रेजरी से जमा कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

(B) समाधान योजना के अन्तर्गत कार्य संविदा हेतु प्रयुक्त माल पर आईटी0सी0 की गणना

क्र०सं०	वस्तु का नाम	समाधान योजना से आच्छादित कार्य संविदा में प्रयुक्त माल की माप/मात्रा	कालम-3 में दर्शित मात्रा का क्रय मूल्य (कर छोड़कर)	बिक्री से भिन्न निस्तारित माल का मूल्य (लगभग)	योग [4+5]	एक्ट के अंतर्गत देयकर की दर	आर०आईटी0सी0 की धनराशि
1	2	3	4	5		6	7
i							

(C) शुद्ध देय आईटी0सी0 [A(9) – B(7)]

रु०

पार्टनर/प्रोप्राईटर आदि का नाम एवं हस्ताक्षर
प्रास्थिति
व्यवहारी का नाम एवं पद्धति
टिन